



छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय

प्रेस विज्ञप्ति

कल्याणपुर, कानपुर

उत्तर प्रदेश-208024

दिनांक: 08-02-2022

आज दिनांक- 08-02-2022 को छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एकेडमिक्स में स्थापना दिवस समारोह के संदर्भ में बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित श्री विश्वेश्वर मंदिर में सुबह हवन किया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में 570 पौधों का रोपण किया जाएगा। वि.वि द्वारा स्थापना दिवस कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा आंकाक्षाओं की पूर्ति' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन 11:30 बजे से यू.आई.ई.टी- 4 में किया जायेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्गाशंकर मिश्र(मुख्य सचिव) होंगे और वक्तागण पूर्व कुलपति प्रो. हर्ष कुमार सहगल और प्रो.अशोक कुमार होंगे। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय के स्पेशल कवर को रिलीज किया जायेगा और छत्रपति शाहूजी महाराज पर पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा न्यूज़लेटर लांच किया जाएगा और विश्वविद्यालय पर आधारित 6 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाएगी, इसके

साथ ही कॉफी बुक टेबल का भी अनावरण किया जाएगा। वि.वि के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आस पास के दर्जनों गांवों में महिला एवं बच्चों हेतु विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वि.वि द्वारा चीफ पोस्ट मास्टर को सम्मानित किया जाएगा। इस बैठक में कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार यादव, प्रो. संजय स्वर्णकार, प्रो. सुधीर अवस्थी, डॉ.प्रवीण कटियार , डॉक्टर विवेक सचान, आदि लोग मौजूद रहे।

डॉ. विशाल शर्मा

मीडिया प्रभारी

Vishalsharma@csjmu.ac.in